



Summer Vacation Assignment (2023-24)

LKG

PRAKRITI
INTERNATIONAL SCHOOL

English	Hindi
<ol style="list-style-type: none">1. Do page no. 25 to 34 in the book. (Trace and Write)2. Write a five pages Alphabet A to Z in Practice Copy.3. Draw an Alphabet (A to Z) tree on chart paper and color it.4. Picture Dictionary- Paste one picture for each Alphabet and write the picture name.5. Learn A to Z with words.6. Learn about 'Yourself'.	<ol style="list-style-type: none">१. पाँच पेज अ से अ: तक लिखें।२. स्वर को चार्ट-पेपर पर लिख कर उनमें रंग भरें।३. पृष्ठ संख्या 19 से 28 तक किताब में करें।४. सप्ताह के दिनों के नाम याद करें।५. अपने स्कूल का नाम लिख कर उसमें रंग भरें।
Maths	EVS
<ol style="list-style-type: none">1. Learn and write counting 1 to 50. (3 times)2. Learn and write table of 2. (5 times)3. Learn and write number names 1 to 10 with Crayons.4. Learn the Mobile Number of your father.5. Draw different shapes (circles, squares, rectangles and triangles) and color it.	<ol style="list-style-type: none">1. Learn names of Body Parts.2. Learn names of five sense organs.3. Learn days of the week.4. Learn the names of the months.5. Learn five fruits, vegetables, flowers, colours, and bird names with spellings.
Hindi Rhymes	English Rhymes
<ol style="list-style-type: none">१. सबेरा२. चीं, चीं, चीं३. तितली४. दीपावली५. मछली रानी६. बारिश बारिश जाओ ना१. बारिश आई छम-छम, छम	<ol style="list-style-type: none">1. Rain, Rain Go Away.2. Johny, Johnny3. Ding Dong Bell4. Twinkle – Twinkle Little Star.5. Two Little Dickie Birds.6. Hickory, Dickory Dock.7. Teddy Bear8. Clap Your Hands.9. Baa, Baa, Black Sheep10. Humpty Dumpty.
Activity	
<ol style="list-style-type: none">1. Find and paste figures of Summer Season, fruits, vegetables, and clothes in A4 sheet paper and write their names.2. Draw the outline of your hand on a piece of paper and fill it with color and decorate it.	
<p>Dear parents, Kindly encourage Health and Hygiene Habits in your ward.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Take a bath twice a day.2. Do your homework daily.3. Revise your oral homework every day.4. Wash fruits and Vegetables before eating.5. Help your parents in regular household work.6. Don't use mobile phone.	